

**प्रेस नोट दिनांक 18.06.2021**

**थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।**

**थाना भोजीपुरा #bareillypolice द्वारा 40.000 रूपए उधार के वापस न करने पर की मित्र की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया . अभियुक्त की निशा-देही पर मृतक का मोबाइल व मो0सा0 बरामद।**

दिनांक 15.06.2021 को श्री लेखराज पुत्र वीरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम मनहेरा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली द्वारा लिखित सूचना खुद के भाई सोमपाल उम्र करीब 35 वर्ष के दिनांक 13.06.2021 से गुम हो जाने के सम्बन्ध में गुमशुदगी थाना भोजीपुरा पर अंकित कराई गई जिसकी जाँच उ0नि0 देशराज सिंह द्वारा की जा रही थी जाँच के दौरान दिनांक 16.06.2021 की रात्रि जादवपुर के आगे दनिया नदी के पुल के बाएं नदी के पानी में एक अज्ञात पुरुष का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई जिसकी शिनाख्त गुमशुदा सोमपाल पुत्र वीरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम मनहेरा थाना भोजीपुरा, जनपद बरेली के रूप में हुई। पानी में शव तो मिला परन्तु परिजनो के अनुसार उसका मोबाइल तथा मो0सा0 नहीं मिली तो हत्या कर शव पानी में फेंके जाने प्रबल आशंका को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रोहित सिंह सजवाण, जनपद बरेली द्वारा घटना के सफल एवं त्वरित अनावरण हेतु निर्देशित किया गया जिनके निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बरेली व क्षेत्राधिकारी नवाबगंज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा द्वारा उसी समय से अनावरण हेतु प्रयास प्रारम्भ कर दी गई। मृतक के शव को पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया था तथा जाँच कर उसके करीबी सन्दिग्ध व्यक्ति जो दिनांक 13.06.2021 को मृतक के साथ देखे गये थे उनमें से चिन्हित कर पूछताछ की गई तो मृतक के मित्र कमरुद्दीन पुत्र मो0 शेर निवासी ग्राम बैकुण्ठापुर थाना भोजीपुरा, जनपद बरेली अपने झूठ पर ज्यादा देर न टिक सका और सत्यता को कबूल कर बताया कि साहब सोमपाल मेरे मित्र था जिसने अपनी बीमारी में 40,000 रूपए मुझसे ले लिए थे काफी समय से देने में आना कानी कर रहा था मुझे रूपयो की आवश्यकता थी इस लिए मैंने पहले से ही सोच लिया था कि आज रूपए नहीं दिए तो आज सोमपाल को ठिकाने लगा दूंगा मैंने दिनांक 13.06.2021 को ही फोन करके सोमपाल को भोजीपुरा बुलाया और अपने पैसे की बावत कहा तो सोमपाल ने देवरनिया से किसी से रूपए लेकर मुझे देने को कहा और देवरनिया जाकर भी जब रूपए नहीं दिए तो मेरा गुस्सा और अधिक हो गया तब मैंने वापसी में देवरनिया पुलिया पर उसकी मो0सा0 रुकवा ली और दोनो में कहा सुनी हो गई जिसमें मैंने सोमपाल की गला दबा कर हत्या कर दी और शव को पानी में फेंक दिया तथा उसकी मो0सा0 को भी दूसरी तरफ पानी में फेंक दिया मोबाइल को आगे चल कर मझौआ रोड पर एक नाले में डाल दिया गया। तब पुलिस द्वारा अभियुक्त कमरुद्दीन की निशादेही पर मृतक की मो0सा0 व मोबाइल बरामद किया गया तथा अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म को कबूल किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 309/21 धारा 302,201 भादवि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-** कमरुद्दीन पुत्र मो0 शेर निवासी ग्राम बैकुण्ठापुर थाना भोजीपुरा, बरेली उम्र करीब 35 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. मृतक की मोटर साईकिल स्पेलण्डर प्लस
2. मृतक का मोबाइल

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह
2. उ0नि0 कुलदीप कुमार
3. उ0नि0 कामेश कुमार
4. का0 709 कुमार सुदर्शन
5. का0 2687 रवि कुमार
6. का0 2625 धर्मराज
7. का0 2400 गौरव कुमार

**प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा  
जनपद बरेली।**